



::आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क::
O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE,



द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan,
रेस कोर्स रिंग रोड, / Race Course Ring Road.

राजकोट / Rajkot - 360 001

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142 Email: cexappealsrajkot@gmail.com

रजिस्टर्ड डाक ए. डी. द्वारा :-

क	अपील फाइल संख्या / Appeal File No	मूल आदेश में / OIO No.	दिनांक / Date
	V2/87/GDM/2016	04/AC/Anjar/2016-17	28.09.2016

7333 To 7336

ख अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.):

KCH-EXCUS-000-APP-190-2017-18

आदेश का दिनांक / Date of Order:	21.02.2018	जारी करने की तारीख / Date of issue:	23.02.2018
------------------------------------	-------------------	--	-------------------

कुमार संतोष, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /
Passed by Shri Kumar Santosh, Commissioner (Appeals), Rajkot

ग अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त/सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवाकर, राजकोट / जामनगर / गान्धिधम / द्वारा उपरलिखित जरी मूल आदेश से श्रेणित /
Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise / Service Tax, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham

घ **अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता /Name & Address of the Appellant & Respondent :-**
1.M/s. Kesari Oil P. Ltd.,Plot No. 7 & 8, Survey No. 32, Village : Meghpar Borichi,Anjar Galpadar Road, Taluka Gandhidham

इस आदेश(अपील) से व्यक्ति कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके से उपरोक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील टायर कर सकता है/
Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

(A) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35B के अन्तर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अन्तर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है /
Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

(i) इलाहाबाद न्यायालय में सम्बन्धित सभी मामलों सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, ग्रेट ब्लॉक नं 2, आर.के. परम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए /
The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Param, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

(ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बतलाए गए अपीलों के अलावा सभी अपीलों सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील न्यायाधिकरण (सिस्टर) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, (द्वितीय तल, बहामनी भवन असावा अहमदाबाद- 380016) को की जानी चाहिए /
To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2nd Floor, Bhaumali Bhawan, Asawa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

(iii) अपील न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमवली, 2001, के नियम 6 के अन्तर्गत निर्धारित किए गए धारा EA-3 को धारा 5 में बदल दिया जाना चाहिए। इसमें दो बरतों से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की सीमा, धारा 3 की सीमा और असावा सेवा शुल्क, धारा 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करी। निर्धारित शुल्क का अभाव, संबंधित अपील न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्ट्रार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का अभाव, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपील न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। असावा आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए असेट-पर के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होता है।
The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of duty demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac. 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-.

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of duty demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac. 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-.

(B) अपील न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अन्तर्गत सेवाकर नियमवली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित धारा S.T.-5 में धारा 5 में बदल दिया जाना चाहिए। इसमें दो बरतों से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की सीमा, धारा 3 की सीमा और असावा सेवा शुल्क, धारा 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करी। निर्धारित शुल्क का अभाव, संबंधित अपील न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्ट्रार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का अभाव, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपील न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। असावा आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए असेट-पर के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होता है।
The appeal under sub-section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and Shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.

The appeal under sub-section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and Shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.

(i) विल अपीलियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एव (2A) के अंतर्गत दंड की सही अवधि, सेवाकर निष्काशनी, 1994, के नियम 9(2) एव 9(2A) के तहत निर्धारित धारा S.T. 7 में की जा सकेंगी एवं उसके तहत आवृत्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अध्या अध्यावृत्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की परिधि संलग्न की (जन्मे से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आवृत्त द्वारा महावक्क आवृत्त अध्या उपवृत्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवाकर, को अपीलिय न्यायाधिकरण को आवेदन दंड करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। / The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in Form ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal

(ii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलिय प्राधिकरण (अपील) के प्रति अपील के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपीलियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अपीलियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलिय प्राधिकरण में अपील करने समय उत्पाद शुल्कसेवा कर साथ के 10 प्रतिशत (10%), जब मात्र एवं जुमाने विवादित है, या जुमाने, जब सेवाक जुमाने विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्त कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जने वाली अपीलिय देय राशि दस करोड़ रुपय से अधिक न हो।

- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत 'मात्र किए गए शुल्क' से विशेष शामिल है
 - (i) धारा 11 डी के अंतर्गत रकम
 - (ii) सेवक्रेट जमा की सी नहीं बसल राशि
 - (iii) सेवक्रेट जमा निष्काशनी के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम

- बशर्त यह कि इस धारा के प्राधान्य विधायी (स. 2) अपीलियम 2014 के अंतर्गत से पूर्व किसी अपीलिय प्राधिकरणी के अलावा विवादधीन स्थान पर अपील एवं अपील को लागू नहीं होगी। / For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against the order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores.

- Under Central Excise and Service Tax, 'Duty Demanded' shall include
 - (i) amount determined under Section 11 D,
 - (ii) amount of erroneous Central Credit taken,
 - (iii) amount payable under Rule 6 of the Central Credit Rules
- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014

(C) भारत सरकार की पुनरीक्षण आवेदन :
 Revision application to Government of India:
 इस आदेश की पुनरीक्षण प्राधिक निम्नलिखित मामलों में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपीलियम 1994 की धारा 35EE के अंतर्गत अपील सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई, विल संकाय, राजस्व विभाग, पार्लमैट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। / A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:

(i) यदि मात्र के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी मात्र को किसी कारखाने से अंतर गृह के परिवहन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक अंतर गृह से दूसरे अंतर गृह परिवहन के दौरान, या किसी अंतर गृह से या अंतरण में मात्र के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी अंतर गृह से मात्र के नुकसान के मामले में। / In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse

(ii) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर गये मात्र के विनिर्माण में प्रयुक्त किये गए मात्र पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छूट (रिबेट) के मामले में, जो मात्र के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। / In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(iii) यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को मात्र निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

(iv) निर्दिष्ट उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो इमुटी क्रेडिट इस अपीलियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मात्र की गई है और ऐसे आदेश जो आवृत्त (अपील) के द्वारा विल अपीलियम (स. 2), 1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तरीक अध्या समावृत्ति पर या बट में पारित किए गये हैं। / Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(v) उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां धारा संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) निष्काशनी, 2001, के नियम 9 के अंतर्गत निर्दिष्ट है, इस आदेश के संदर्भ के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपीलियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साथ के साथ व TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। / The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the O.I.O and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(w) पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए। / जहां संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रुपये से ज्यादा हो तो रुपये 1000 / का भुगतान किया जाए। / The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac

(D) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का संश्लेषण है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपरोक्त धारा में किया जाना चाहिए। इस लक्ष्य के होने हुए भी की विद्या चर्ची कार्य से बचने के लिए कर्त्तव्य अपीलिय प्राधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाना है। / In case, if the order covers various numbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellate Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filed to avoid scripionia work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.

(E) न्यायाधीन न्यायालय शुल्क अपीलियम, 1975, के अनुसूची-1 के अनुसार मूल आदेश एवं संलग्न आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs. 6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended.

(F) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलिय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) निष्काशनी, 1982 में बर्णित एवं अन्य संबंधित मामलों को ध्यान में रखते हुए अपीलिय प्राधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाना है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(G) उच्च अपीलिय प्राधिकरणी को अपील दर्जित करने से संबंधित विवरण, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलिय विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in में देय करने हैं। / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in

29

:: ORDER IN APPEAL ::

M/s. Kesri Oil Pvt. Ltd., Plot No. 7 & 8, Survey No. 32, Village: Meghpar Borichi, Anjar Galpadar Road, Taluka: Anjar (Kutch), Pin: 370 201 (hereinafter referred to as 'the appellant') filed the present appeal, against Order-In-Original No. 04/AC/ANJAR/2016-17 dated 28.09.2016 (hereinafter referred to as 'the impugned order') issued by the Assistant Commissioner, Central Excise Division, Anjar (hereinafter referred to as 'the lower adjudicating authority').

2. The brief facts of the case are that the appellant had availed excess cenvat credit of duty of Rs. 12,510/- during the period from April, 2010 to March, 2012 and contravened provisions of Rule 3(1) of the Cenvat Credit Rules, 2004 (hereinafter referred to as "the CCR, 2004"). This observation led to issuance of Show Cause Notice No. V.(27)/15-48/Anjar/2015-16 dated 18.01.2016 covering period from April, 2010 to March, 2012 and demanding excess availed cenvat credit of Rs. 12,510/- under Rule 14 of the CCR, 2004 read with Section 11A(4) of the Central Excise Act, 1944 (hereinafter referred to as 'the Act') and proposing to appropriate Rs. 12,510/- paid by them before issuance of the SCN and for recovery of interest of Rs. 4,112/- under Rule 14 of the CCR, 2004 read with Section 11AA of the Act and penalty of Rs. 12,510/- under Rule 15 of the CCR, 2004 read with Section 11AC of the Act. The said SCN was adjudicated by the lower adjudicating authority vide impugned order, wherein the demand of excess availed cenvat credit of Rs. 12,510/- was confirmed under Rule 14 of the CCR, 2004 read with Section 11A of the Act and appropriated the same as the appellant had already paid and recovery of interest of Rs. 4,112/- under Rule 14 of the CCR, 2004 read with Section 11AA of the Act was ordered and penalty of Rs. 12,510/- under Rule 15 of the CCR, 2004 read with Section 11AC of the Act was imposed.

3. Being aggrieved with the impugned order, the appellant preferred the present appeal on the grounds as follows:

(i) There is no revenue loss as cenvat credit of duty paid by the appellant is available at another unit situated at Faridabad and hence issue was revenue neutral. Therefore, it cannot be said involvement of suppression, mis-statement etc. for evasion of central excise duty and hence extended period cannot be invoked and the demand hit by limitation.

(ii) Penalty is not imposable due to non-availability of ingredient of fraud,

suppression, willful mis-statement etc. on the part of the appellant as case is revenue neutral.

(iii) The appellant had already reversed demand of Rs. 12,510/- before issuance of the show cause notice and hence, the show cause notice was not required to be issued as per Section 11A of the Act.

(iv) The appellant submitted that at the relevant time, they had balance in their cenvat credit account more than the amount demanded and they had reversed amount demanded from the cenvat credit account and hence interest should not be levied under Rule 14 of the Cenvat Credit Rules, 2004.

4. Personal hearing in the matter was attended by Shri Paresh Koka, Accountant of the appellant, who reiterated the grounds of appeal; that he failed to give any reason for delay in filing appeal; that he has nothing more to submit on the issue.

Findings:

5. I have carefully gone through the facts of the case, impugned order, appeal memorandum. The limited issue to be decided in the present appeal is whether the appeal has been filed in time and if not, whether is it maintainable or not.

6. I find that the appellant had received the impugned order on 30.09.2016 and filed present appeal on 28.12.2016 and hence delay of 28 days in filing appeal. The appellate authority, as per Section 35 of the Act, has power to condone delay of maximum up to 30 days, over and above the normal period of 60 days for filing appeal on reasonable cause being shown. In the present case, no application for condonation of delay has been filed by the appellant even when the appellant has been requested vide this office letters dated 03.01.2017 and dated 18.01.2018. Hence, I have no other option but to hold that the appellant has filed the present appeal beyond stipulated time limit of 60 days and in absence of any justification shown by the appellant in filing appeal delaying by 28 days, the appeal is required to be dismissed on the ground of limitation of time in filing of appeal. Accordingly, I dismiss the appeal on this ground alone.

[Handwritten signature]

7. In view of above, I dismiss the appeal filed by the appellant as not

maintainable.

८. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।
8. The appeal filed by the appellant is disposed off in above terms.

R.P.A.D.
21/12/2018
(कुमार संतोष)
(अपील्स) आयुक्त

By R.P.A.D.

To,

M/s. Kesri Oil Pvt. Ltd., Plot No. 7 & 8, Survey No. 32, Village: Meghpar Borichi, Anjar Galpadar Road, Taluka: Anjar (Kutch), Pin: 370 201.	मेसर्स केसरी ऑइल प्रा. ली., प्लॉट नं. ७ एवं ८, सर्वे नं. ३२, गाँव: मेघपर बोरिची, अंजार गलपादर रोड, तालुका अंजार (कच्छ), पिन: ३७० २०१.
---	--

Copy for information and necessary action to:

- 1) The Chief Commissioner, CGST & Central Excise, Ahmedabad Zone, Ahmedabad for kind information please.
- 2) The Commissioner, CGST & Central Excise Commissionerate, Gandhidham.
- 3) The Assistant Commissioner, CGST & Central Excise Division – Anjar, Gandhidham.
- 4) Guard File.